




**फर्द अहकाम**


(नियम 26)


न अदालत ..... उपखण्ड 3 अदालत मुकाम ..... गीतना .....  
 नं. 200 अदि बनाम ..... विजकारी अदि .....  
 सम मुकदमा ..... 88 R/M/17 नं. 27/2017 ..... सर् दि. 29/03/17


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
	<p>08/03/2017</p> <p>टावा वकील वाडीगण द्वारा पैश किया गया। रिपोर्ट की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवाडीगण को जरूरी सम्मान तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27/04/2017 को पैश हो।</p> <p style="text-align: right;">R/P</p>	
27/4/17	<p>पत्रावली के जू इव वकील करी उदाहरण प्रतिकरी 10। 103 की फर्द के अहकाम के वकील के वकालत मय प्रश हुमा, गरीदगी से 4 वकालत प्रीप्टर इच्छे के वकालत - चहेत के पत्रावली के तलब/ जमा</p> <p>26/5/17 के पत्रावली</p> <p style="text-align: right;">R/P</p>	<p>डिलीवरी के 4 दिनों में की तलबी 20/03/17 के पत्रावली - चहेत के</p> <p style="text-align: right;">R/P</p>
15/12	<p>पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./पत्रावली लोक अदालत में राजीनामा से निर्णय नहीं होने पर न्यायालय में वापिस प्राप्त हुई पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">31.7.17</p> <p style="text-align: right;">R/P</p>	
17/12	<p>वकील वादी/प्रतिकर्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्तु.....</p> <p>दिनांक 29/9/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">R/P</p>	

16<sup>11</sup>/25 वकील बाकी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.  
पञ्चावली गत आदेशानुसार वारते... 45/11 151 CPC  
दिनांक. 9/12/25 को पेश हो। 

9/12/25 वकील बाकी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.  
पञ्चावली गत आदेशानुसार वारते... 45/11 151 CPC  
दिनांक. 25/12/25 को पेश हो। 

23/12/25 वकील बाकी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.  
पञ्चावली गत आदेशानुसार वारते... 45/11 151 CPC  
दिनांक. 24/12/25 को पेश हो। 

9/12/26 वकील उममपक्ष उपस्थित। चार्जना-पत्र 151 CPC  
पर बहस चुनौती गई पञ्चावली का भवलोक्त  
क्रिया गया बाद भवलोक्त पाया कि वकील  
प्रतिवादी को अवसर पेश करने हेतु करीब  
चार वर्ष का समय दिया गया था परंतु  
अवसर पेश नहीं किया। अतः चार्जना-पत्र  
151 CPC एकीकरण क्रिया आता न्यायोचित नहीं  
होने के कारण रद्द किया जाता है।  
पञ्चावली वारते बहस दिनांक 13.12.26 को  
पेश हो। 

13/12/26 वकील उममपक्ष उपस्थित। बहस चुनौती गई  
पञ्चावली का भवलोक्त क्रिया गया बाद  
भवलोक्त पाया कि वादीगण द्वारा अपने  
अनुचित में राजेड के नाम दर्ज आदमी  
के अ० दि० व० के अन्वयेन अधिपति किने  
गाने का निवेदन किया है। 

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नाम्यर य तारीख  
फर्द अहकाम की  
हुकम की तामील  
जारी हुआ

नवीनतम जमाखन्डी का अवलोकन  
करते हुए पाया कि इत आरणी  
वादीगव के नाम से व.दि.००  
दर्ज हो चुकी है।

अतः कोर्ट भद्रगेष ड्रेव के  
होने के कारण पंगवली को  
वर्तमान स्तर पर इषादिग  
क्रिया जाता है।

पंगवली नम्बर से काम कर  
आकर वाड तफसील इरीपल  
दर्ज है।

(Bhagwath Ram)  
उपन्यायधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)